

प्रेस विज्ञप्ति

### जामिया का प्लेसमेंट सेल और आईबीएम स्किलबिल्ड-सीएसआर फाउंडेशन रोजगार वृद्धि के लिए साथ

यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट सेल (UPC), जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI) ने IBM स्किल्स बिल्ड-CSRBOX फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है। फाउंडेशन कौशल-निर्माण और लर्निंग डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां छात्र उद्योग-संबंधित कौशल और पाठ्यक्रम प्राप्त कर सकते हैं। यह सहयोग तकनीकी कौशल, व्यावसायिक कौशल और नौकरी की तैयारी कौशल जैसे आवश्यक कौशल के अधिग्रहण के माध्यम से विश्वविद्यालय के छात्रों को मुफ्त डिजिटल लर्निंग सुविधा प्रदान करेगा। आईबीएम स्किल्सबिल्ड 7500 से अधिक लर्निंग गतिविधियों / पाठ्यक्रमों के साथ एक मुफ्त एक्सेस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के छात्रों और नौकरी चाहने वालों में इंडस्ट्री-रेलिवेंट कौशल विकास पर केंद्रित है।

जामिया की कुलपति प्रो. नजमा अख्तर ने कहा, "यह सहयोग छात्रों को और अधिक रोजगारपरक बनाकर उनके प्रोफेशन और जॉब तैयारी के कौशल को विकसित करने में अहम भूमिका निभाएगा साथ ही उद्योग और शिक्षा के बीच सेतु का काम भी करेगा।"

तकनीकी कौशल में स्पेशल डोमेन से संबंधित क्षेत्र शामिल होंगे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सुरक्षा, डेटा विज्ञान आदि कोर्स शामिल होंगे। व्यावसायिक कौशल संचार में इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग जैसे कोर्स शामिल होंगे। जॉब रेडीनेस स्किल्स में रिज्यूमे राइटिंग, इंटरव्यू आदि जैसे विषय शामिल होंगे। पाठ्यक्रम ऑनलाइन उपलब्ध हैं और उन सभी स्नातकों और स्नातकोत्तरों के लिए खुले हैं जो अपने पोर्टल पर पंजीकरण करना चाहते हैं। वे छात्रों के लिए कुछ ऑफलाइन जॉब रेडीनेस वर्कशॉप भी आयोजित करेंगे।

दोनों पक्षों के बीच एक औपचारिक समझौता पत्र (एलओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। यह एलओयू प्रारंभ में 05/04/2022 से एक वर्ष की अवधि के लिए होगा। विश्वविद्यालय के एलओयू हस्ताक्षर कार्यक्रम में डॉ. रहेला फारूकी, मानद निदेशक यूपीसी, प्रो. सबा खान और डॉ. मुनीस शकील, उप निदेशक यूपीसी, जामिया तथा आईबीएम के दो सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट्स शुभांगी मदन और रोहित राजपूत ने भाग लिया।

जनसंपर्क कार्यालय  
जामिया मिल्लिया इस्लामिया